



संख्याओं के प्रतिशत की गणना करें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$15 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$13 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$82 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$98 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$5 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$68 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$21 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$76 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$67 \times 40\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$32 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$96 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$29 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$80 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$91 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 \times 70\% = \underline{\hspace{2cm}}$


$89 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$63 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$51 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$19 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$69 \times 50\% = \underline{\hspace{2cm}}$



संख्याओं के प्रतिशत की गणना करें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$15 \times 80\% = 12$$

$$13 \times 30\% = 3.9$$

$$82 \times 20\% = 16.4$$

$$98 \times 20\% = 19.6$$

$$5 \times 90\% = 4.5$$

$$68 \times 80\% = 54.4$$

$$21 \times 90\% = 18.9$$

$$76 \times 80\% = 60.8$$

$$67 \times 40\% = 26.8$$

$$32 \times 60\% = 19.2$$

$$96 \times 90\% = 86.4$$

$$29 \times 30\% = 8.7$$

$$80 \times 20\% = 16$$

$$91 \times 10\% = 9.1$$

$$56 \times 70\% = 39.2$$

$$89 \times 90\% = 80.1$$

$$63 \times 10\% = 6.3$$

$$51 \times 60\% = 30.6$$

$$19 \times 80\% = 15.2$$

$$69 \times 50\% = 34.5$$